

## महाशिवरात्रि निमित्त व्यसन मुक्ति जन जागरण कार्यक्रम

नवी मुंबई स्थित वाशी सेवाकेंद्र द्वारा इस महाशिवरात्रि के अनोखे पावन पर्व पर व्यसन मुक्ति एवं जन जागरण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में रैली में 500 से भी अधिक भाई बहेनो ने शांति के प्रकंपन भिन्न भिन्न स्थानों पर फेलाए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उद्देश्य यही था की आज का मानव जो इन व्यसनों जैसे की (तम्बाकू, सिगारेट, शराब, ड्रग्स, पान, गुटखा) के वश हो गया है, उसे कैसे ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग के अभ्यास से मुक्त किया जा सकता है

इस कार्यक्रम के दौरान एक व्यसन मुक्ति के उपर लघुनाटिका भी प्रस्तुत की गयी थी।

कार्यक्रम वाशी रेलवे स्थानक पर आयोजित किया गया था, जिससे अधिक से अधिक इच्छुक और व्यसन मुक्त होने की अभिलाशा रखनेवाले भी उसका लाभ उठा सके।

कार्यक्रम से,

वाशी - नवी मुंबई से, (दीप प्रज्वलन LEFT to RIGHT)

आदरणीय भ्राता प्रकाश मोरे (कोर्पोरेटर)

आदरणीय भ्राता विक्रम शिंदे (पूर्व आरोग्य समिति सभापति)

आदरणीय भ्राता शेखर बागडे (सिनीअर पुलिस इंस्पेक्टर)

आदरणीय बी.के शीला दीदी - वाशी सेवाकेंद्र संचालिका

आदरणीय भ्राता एकनाथ ताम्बवेकर (वाईस प्रेसिडेंट. महाराष्ट्र नशा मुक्ति संघटना)

आदरणीय बहन डॉ शशी ओबेरॉय

आदरणीय भ्राता आतानु विश्वास (वाईस प्रेसिडेंट रिलायंस)

कार्यक्रम की गतिविधि इस प्रकार थी,

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथिगण के सन्मान के साथ साथ एक स्वागत नृत्य द्वारा हुई। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन सभी अतिथिगण के उपस्थिति में किया गया था।

**बी.के अनुजा बहन** ने सभी को विद्यालय के समाज के प्रति जो कार्य है, उससे अवगत कराया |

**आदरणीय बी.के शीला दीदी ( सेवा केंद्र संचालिका – आत्मचिंतन भवन - वाशी )** ने अपने प्रवचन में कहा, "जब मनुष्यों के जीवन में मूल्य आ जाएंगे तब नशा कोई काम नहीं करेगा, किन्तु नशे से भी बढ़कर शुद्ध नशा, वह है अच्छे सद्गुणों का नशा | उसके द्वारा ही वसुधैव कुटुंब की स्थापना होती है, और हर व्यक्ति मेरा है की भावना उत्पन्न होती है, स्वार्थ, द्वेष, विरोध, बदले और क्रोध की भावना बदल जाती है |"

**बी के लक्ष्मी दीदी** ने कुछ पलो के लिए सभा में उपस्थित सभी महमान एवं अतिथी गणों को राजयोग का अभ्यास करवाया|

**आदरणीय भ्राता शेखर बागडे (सिनीअर पुलिस इंस्पेक्टर)** ने अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा, "समाज में शांति, सुख एवं अमन से रहने के लिए, लोगो में जागृतता लाने का काम यह संस्था कर रही है, और जो जागृतता लाने का काम यह संस्था कर रही है, वह काम हमें करना चाहिए क्योंकि गरीबी जहाँ है, वहां बच्चे इस गलत चीजो में फस रहे हैं, जिससे उनका परिवार बहोत चिंतनीय है, मैं दीदी से प्रार्थना करता हु ऐसे कार्यक्रम इस तरह के इलाके में करे जिससे परिवार भी व्यसन से मुक्त हो सके."

**आदरणीय भ्राता एकनाथ ताम्बवेकर (वाईस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र नशा मुक्ति संघटना)** ने शुभेच्छा, देते हुए कहा, महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडल की और से महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर शुभेच्छा.

**आदरणीय भ्राता प्रकाश मोरे (कोर्पोरेटर)** ने कहाँ, हमारे प्रभाग में एक छोटे से मंदिर से दीदी ने सेवा की शुरुआत की उसको भी आज अनेक वर्ष हो गए है जो की सराहनीय है |

**आदरणीय भ्राता विक्रम शिंदे (पूर्व आरोग्य समिति सभापति)** ने कहा, इस संस्था के हर व्यक्ति में बहोत शालीनता है, और कहा शांति उन्ही के पास है जिनके पास धीरज है | समाज में जो अच्छे लोग होते है उससे चैन बनती है और और वह रुकती नहीं है, आने वाले भविष्य में समाज के हर घटक तक पहुँचने का काम यह

संस्था करती रहे यही में आने वाले महाशिवरात्रि शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ ।

**आदरणीय भ्राता आतानु विश्वास (वाईस प्रेसिडेंट रिलायंस)** ने कहा, जैसे दुनिया में अगर किसीको व्यसन होता है, तोह उसे कुछ और वस्तु देकर उसका व्यसन छुड़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह सिखाया जाता है, भगवान् की याद की आदत पड़ जाएगी तो बाकी अनेक व्यसन तोह ऐसेही छूट जाएंगे ।

**आदरणीय बहन डॉ शशी ओबेरॉय** ने कहा, ब्रह्माकुमारी में सामाजिक और मानसिक भावनाओं को कैसे शशक्त किया जाता है यह पढाया जाता है जिससे हमारा विवेक यानी इंटेलिजेंस अपने आप विकसित होता है, और हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है।

कार्यक्रम में व्यसन मुक्ति के ऊपर लघुनाटिका भी प्रस्तुत की गयी जिसको भी सभी ने खूब सराहा ।

**लघुनाटिका विडियो लिंक - <https://youtu.be/vZ8d9Glc0oc>**

कार्यक्रम के अंत में सभी महानुभावों को शौल, ईश्वरीय सौगात के साथ सन्मान भी किया गया ।